MULTIPUAPOSE TRADING AND AGENCIES LIMITED

(CIN: L70101DL2003PLC115544)

Reg. Office: B-1, Kallndi Colony, New Delhi-110065 Phone/ Fax: 011-26316162, 011-42908812

Website: www.multipurposetrading.in, E-mail: Info@multipurposetrading.in

Date: 31/05/2024

To,
Bombay Stock Exchange Limited
Listing Centre
25th Floor, Phiroze jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai- 400 001

Sub. -: News Paper Publication of Financial Result as per regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulation 2015

Ref. -: Scrip Code - 504356

Dear Sir,

This is with reference to regulation 47(1)(b) of SFBI (LODR) Regulation 2015, we enclosed herewith the copy of published financial result for the quarter and year ended on 31.03.2024 in two news papers. Hindi and English (attached)

Kindly take this on record as compliance with relevant regulations of SEBI (LODR) Regulation, 2015

Thanking you Your faithfully,

For Multipurpose Trading and Agencies Limited

For Mullipurpose Trading & Agencies Ltd.

Ashish Shataging Director/Chairman

Managing Director

Encl: Published Financial Result for the period ended 31.03.2024

Israel used US-made bombs in strike that killed dozens near Rafah

NEW YORK (AGENCY)

The bombs used in the Israeli strike that killed dozens of Palestinians in a camp for displaced people near Rafah on Sunday were made in the US, according to

near raafin on Sunang Were made in the US, according to weapons experts and visual evidence. Munition debris filmed at the strike location the next day were remnants from a GBU-39, a bomb designed and manufactured in the US, The Times found. US officials have been pushing Israel to use more of this type of bomb, which they say can reduce civilian casualties. The key detail in the weapon debris was the tail actuation system, which controls the first that guide the GBU-39 to a target, according to Trevor Ball, a former US Army explosive ordinance disposal technician, who califier identified the weapon's unique bolt patern and solx where the folding fins are stowed, were tern and slot, where the foll-ing fins are stowed, were clearly visible in the debris, Ball said The munition frag-ments, filmed by Alam Sadeq, a Palsatinai pournal-ist, are also marked by a series of numbers begin-ning with "81873". This is the unique identifier code assigned by the US govern-



ment to Woodward, an aerospace manufacturer based in Coloro or to specific parts of the coloro or to specific parts of the coloro or to specific parts or to specific parts of the coloro or to specific parts of the color or to specific parts or to specific parts of the color or to specific parts of the col

39 bombs in Gaza because they are generally more precise and better suited to urban environments than larger bombs, including the US-made 2.000-pound bombs that Israel routinely uses. President Joe Biden said earlier this month that the US was pausing a delivery of the larger bombs. The strike was conducted using two munitions with using two munitions with small warheads suited for this targeted strike," Rear Admiral Daniel Hagari, the Israeli military spokesman, said during a news confer-ence on Tuesday. The bombs contained 17kg of bombs contained 17kg of explosive material, he said "This is the smallest munition that our jets can use." In response to questions from The Times, the Israeli military declined to specify the munition used. The GBU-39 has a not explosive unight. has a net explosive weight of about 17kg. Admiral Hagari said the military had taken steps to narrowly tar-get two Hamas leaders, who

he said were killed in the strike, and did not expect the munitions to harm nearby civilians. The bombs were dropped on sheds inside a proper of the strike of the strike

body of a headless child. "The Israelis have said they used 37-pound."

South Korea plans Mars landing in 2045 as it launches first space agency

South Korea plans to make a South Korea plans to malea a Mars landing by 2045 and spend 100 trillion won (\$72.6 billion) until then on space exploration, President Yoon Suk Yeol said on Thursday at the Bunch of the country's first space agency. The Korea Aerospace Administration (KASA) will lead the country's "space economy," with hundreds of businesses and enterprises working to cataput South Korea into the ranks of the world's top five space powers, Yoon said

pult South Korea into the ranks of the world's top five space powers. Yoon said "KASA will usher in a new space era by cultivating experts while intensively supporting the aerospace industry ecosystem and fostering challenging and innovative RRD." Yoon said The country's first lunar lander is planned for 2032.

South Korea became the sevent country to own an indigenous space launch whice and satellite development technology with the launch of the Nuri rocket in May last year that put a commercial grade satellite in orbit. The agency is aimed at streamlining policy and development functions shared among differents where the same of the



ent government ministries and will bring under its structure the aerospace research institute that developed the Nuri and its precursor space launch vehicks. South Korea plans at least three more space launches by 2027 and has plans to launch military satellites. Yoon's announcement highlights the increasing efforts Asian nations are putting into space projuting into space projuting into space projuting into space projuting into space projects. ing efforts Asian nations are putting into space programs for practical reasons, such as honing rocket technology, and to bolster national pride. On Monday, North Korea launched a rocket but failed to put its account military care tentilization. second military spy satellite in orbit, which it blamed on a new type of engine failing. But one expert noted the attempt as a "huge leap" in

country's race for space. South Korea, Japan and the United States condemned the North's launch as violatthe North's bunch as violating U.N. Security Council resolutions banning it from developing ballistic missile technology. China's space program has developed heavy-lift rockets such as the Long March 5, the Tiangong space station, unmanned moon probes and the rover Zhurong that reached Mars in 2021. In January, Japan became the fifth country to place a lander on the moon. Last year, India became the fourth nation to kind on the moon, nation to kind on the moon, nation to land on the moon, after Russia failed in an attempt the same month. Japan also plans a rover mission to Mars.

Hong Kong convicts democracy activists in largest national security trial

HONG KONG (AGENCY)

Dozens of Hong Kong's most well-known democra-cy activists and leaders now face prison sentences, in some cases for perhaps as long as life, after a court issued a verdict Thursday in the city's largest national security that Their offence: holding a primary election to improve their chances in citywide polls. Authorities



accused 47 pro-democracy figures, including Benny Tai, a former law professor, and Joshua Wong, a protest leader and founder of a student group, of conspiracy to commit subversion. Thirty-one of those defendants have since pleaded guilty. On Thursday, judges

have since pleaded guilly.

On Thursday, judges picked by Hong Kong's Beijing-backed leader convicted 14 of the remaining activists and acquitted two others. The convictions show how authorities have used the sweeping powers of a national security law imposed by Beijing to quash political dissent in the Chinese territory. The punishments that are expected to follow in the coming weeks or months

would effectively turn the vanguard of the city's opposition, a hallmark of its once-vibrant political scene, into a generation of political prisoners. Some are former lawmakers who joined politics after Hong Kong was returned to Chinese rule by the Dristoner of the political states and legislators who have advocated self-determination for Hong Kong with more confrontational tactics. Several, including Wong, who rose to fame as a teenage activist, were among the students leading large street occupations in 2014 for the right to vote. Most of the defendants have spent at very some control of the control of the properties of the last three years in detaunties and the state of the control of the properties of the would effectively turn the

In emessage rom the authorities is clear: Any opposition activism, even the moderate kind, will no longer be tolerated, said Hor-lung Hung, an expert on Hong Kong polities at Johns Hopkins. University, The Long to the control of th

Singapore flight service protocol revision after recent severe turbulence faces passengers' reactions

Some frequent fliers have described Singapore diritines (SIA) in-flight service protocol following the recent severe turbulence on its plane as a hasty move which is already having repercussions on its service offerings and driving up stress bevels of cabin crew, a media report said on Thursday, However, the overall requirement of suspending meal service Some frequent fliers hav described Singapor

crew, a media report said on Thursday, However, the overall requirement of suspending meal service and "cabin crew members must buckle up when the seat-belt sign is turned on", has had a ripple effect on passengers and crew, The Straits Times reported.

SIA put more comprehensive safety measures in place shortly after Flight SQ321 from London to Singapore experienced severe turbulence on May 21, kaving a passenger dead and dozens injured. Previously, only hot drinks and soup were not allowed to be served when the seatbelt sign was turned on and service could continue at the discretion of the crew, but meal service must now be completely paused. Flights inbound (towards Singapore) from Europe pass over a patch of the Andaman Sea known Europe pass over a patch of the Andaman Sea known for turbulence, according to The Straits Times, which cited reactions from crew members and passengers. The Andaman Sea, a part of the Indian Ocean, is locat-



ed west of Thailand One flight attendant said there was more than an hour of urbulence during her recent three-and-a-half-hour flight flying a Singapore-India route. The cabin crew had to carry out meal service with the little remaining time.

"Some passengers don't understand why the service policy change is important, and rate service as average to poor via the customer feedback channel after flights where service was affected by turbulence," the broadsteed under the service was affected by turbulence, "the broadsteed under the service was affected by turbulence," the broadsteed under the service was affected by turbulence," and the service was affected by turbulence, and the service was a service w moment there's nothing we can do except continue to navigate our work under the given circumstances." A flight steward said crew members have had to make adjustments "by doing things like removing after-take-off drinks to manage the time we have for meal service". He noted:

"Passenger reactions vary
-- some are very under-standing, while others feel short-changed." During pre-flight briefings he has attended since the incident, pre-flight briefings he has attended since the incident, in-flight managers have been actively checking upon crew members wellbeing, the flight steward said, adding that a counselling team had been formed to support cabin crew. Another crew member said: "While it might be more stressful as meal service may be affected, I think the crew will by to provide the same service standards safely." We carl' fight Mother Nature," said an SIA crew member who has been flying for more than a decade, adding that safety remains the crew's top priority. John Tan, kad professional officer teach imanagement degree programme at the Singapore Institute of Technology said the policy chan "highlights the import ce

of adaptabilty in aviation safety." Prompt responses are necessary to protect passengers and crew effectively. Enacting policy changes in response to incidents fosters a culture of continuous safety and service and the continuous safety and service quality may present a challenge for SIA, added Tan. The objective is to reduce the time cabin crew have to spend on the aisks. For SIA, this could translate into retraining eabin crew to increase their efficiency or changing the way services are delivered without compromising service.

or changing the way services are delivered without compromising service quality. And the option to restructure the cabin layout remains a possibility, he said. Still, Shukor Yusof, founder of aviation consultancy. Bride and Still, Shukor Yusof, founder of aviation consultancy. Bride and Still, Shukor Still, Shukor Lindon, and the serviced by the new protocol. "The decision was arrived at after careful consideration and the urgent need to, first and foremost prevent nasty injuries for passengers and crew in the future," he was quoted as saying. The Singapore duly also finds some netizens in gesting that passes as should take along this food and drinks on foard in case meal service was canned due to turbulence. especially on short-lence. lence. especially on shor and medium-haul flights.

Briefs News

Russia warns of nuclear deterrence steps if U.S. deploys missiles in Europe and Asia

Siles in Europe and Âsia

MOSCOW (AGENCY) Russia may take extra steps in the area of nuckar deterrence if the United States deploys intermediate and short-range missies in Europe and Asia, Russian Foreign Minister Sergei Lurrov told the state RIA news agency in an interview. RIA referred to U.S. plans, announced in April to deploy missiles in the Indo-Pacific region in response to what Washington sees as growing Chinese militarisation. Such deployments would have previously been outlawed under the landmark 1987 Intermediate-range Nucker Forces (INF) Treaty with Russia which the United States formally withdrew from in 2019 after saying that Moscow was violating the accord, an accusation the Kremlin denied Moscow has long warned it would scrap a moratorium it proposed after the treaty lapsed on the deployment of short and medium range missiles if Washington went ahead with plans to deploy such missiles in Asia and Europe. Lavrov told RIA that Russia might have to take other steps too.

Militants burn down girls'

Militants burn down girls' school in former Pakistani Taliban stronghold

Taliban stronghold
Taliban (AGENCY) A group of militants used kerosine to set fire to a gird's chool in a former Pakistani Taliban stronghold destroying furniture, computers and books, the police said on Wednesday. No one was hurt in the overnight attack in North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa province, local police official Rehmat Ullah said. Two other girls' schools in the region were bombed earlier this month. No one has claimed responsibility for the attacks, but authorities suspect Islamic militants, who targeted girls' schools years ago, saying that women should not be educated by Waziristan is a former stronghold of the Pakistanh. Yan who are also known as Tehreek-e-Taliban Pakistanh. Yan et goup but a close ally of the Afghan Taliban, ho seized power in neighbouring Afghanistan in 2021. The Taliban's takeover of Afghanistan has embokhened the Pakistani Taliban.

Indian immigration agent pleads guilty in international students fraud case in Canada; sentenced to 3 years

OTTAWA (AGENCY)

OTTAWA (AGENCY)

An Indian immigration agent at the centre of a scam to cheat students from India by issuing fake college admission to procure Canadian visas has been sentenced to three years in jail after he pleaded guilty before a court in Vancouwer to immigration offences, according to a media report. Brijesh Mishra, 37, was arrested after a Canadian Border Services Agency (CBSA) investigation tied him to dozens of fraudulent acceptance letters for Canadian colleges and universities that were provided to prospective international students from India between 2016 and 2020.

2020.

Dressed in a red jump-suit, Mishra on Wednesday stood inside a Vancouver courtroom and a Vancouver for a slew of Canadian immigration offences. immigration offences.
Mishra pleaded guilty to
three charges related to



Canada's Immigration and Refugee Protection Act, including misrepresentation and communicating false information, CBC News reported Tim sorry, he told the courtroom. To cannot change the past, but I can make sure I do not do it again in the future." Mishra was arrested in Surrey, British Columbia, in June 2023. He entered Canada on a tourist visa, in June 2023. June 2023. He entered Canada on a tourist visa, which had expired at the time of his arrest. Crown and defence hwyers issued a joint sentencing submis-sion asking for three years in prison, to which the judge agreed was sufficient. Mishra's time in custody since his 2023 arrest counts as time served, meaning he will serve an additional 19 months. 'I would say he did show genuine remorse,' CBC News quoted Gagan Nahal, Mishra's defence lawyer, as saying, 'The pleas that were entered today were clearly a demonstration of his remorse because he did have a right to run a trial in remorse because he did have a right to run a trial in this." Nahal said 12 victims came forward during the CBSA's investigation. After serving his sentence in Canada, Mishra is expected to be deported to India where he faces further

criminal charges, including a human smuggling offence. The maximum penalty for that offence is death. No victims or their family members were present in the best were present in the mortal of the property o

Green said prospective students typically came from a modest background in Punjab with the desire to study adroad in Canada and the control of the control o

TENDER NOTICE Sections of Sender In many 1: Tendering III -Procurement Senders, Inc. CAMING, Northern Stations, Sourcess Gold Cells - (1930), in order to be all of the previous of today included the procurement system for company of the procurement system for company single observations.						
26.1	Tember 14th	Brief Departation	Die.	Chesing Date		
ш. (olenkesti.	06/21 No Traction Power Transformer 21 6 White Consists (OMANI II 2018 NOTED TO MINE TO THE POWER TO THE TRACE OF THE POWER TO THE TRACE OF THE POWER TO THE POWER THE POWE	11 M	58/0/10834		

MULTIPURPOSE TRADING AND AGENCIES LIMITED

Regs. Office: B-1, Kalled Colony, New Desh-19300-0, Phone Fax: 011-30310100, 011-30310100 Website: How, mytputposetrating in, C-nail Info@nuffputposetrating is

[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LCDR) Regulations, 2016] (fin Laza							
DI. No	Perticulars	Guerter anciting 2003/2024	Veer to date Figures 61.04.2025 to 31.03.0024	Conseporating 3 months ended in previous year 31/03/2023			
1	Dasi reura	832	35,40	8.49			
2.	Not Profit (0,099) for the period (before Tex. Exceptional profor Extraordinary fornet)	113	21.10	1/1			
3.	Net Profit (), one) for the period before Ger pales Succeptional analog Satrapardinary (ternet)	533	21.19	3.19			
4.	Net Profit (Justia) for the period ofter tax (effer Exceptional profor Extraordinary fornet)	7.14	19.10	6.76			
C.	Total Comprehensive Income for the period (Comprehing Profit / Index) for the period other tast and Other Comprehensive Income latter tast[7.44	16.85	679			
6.	Equity Share Capital	495.00	495.00	485.00			
7	Reserves (excluding Reservation Because) or choice in the Audited Belance Breef of the provious year.	d1/12)	(5.66)	(10.14)			
U.	Earnings Per Share for continuing and decontinued operations) = 1. Servic. 2 Obsert	6,14 5.14	0.00 0.06	# 14 8 14			

लुधियाना पहुंचे राहुल गांधी, मंच पर सिद्धू मूसेवाला को दी श्रद्धांजलि, पीएम नरेन्द्र मोदी पर बरसे

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के प्रधान और पार्टी प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के हक में मुल्लपुर दाखा की दाना मंडी में प्रचार करने पहुंचे। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फसलों पर एमएसपी की काननी गारंटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 85 सौ रुपये दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो आंगनवाडी वर्कर या फिर आशा वर्कर जो काम कर रही है उन्हें जो खर्च दिया जाता है उसे भी चार जून के बाद सरकार आने पर डबल कर दिया जाएगा। समर्थकों से खचाखच भरे पंडाल में राहुल गांधी के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि राजा वडिंग कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही है और लोगों के सही सेवादार साबित होंगे। लोग इन्हें जिता कर लोकसभा में भेजे ताकि लुधियाना का विकास किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने और उसकी रक्षा के लिए लंडे जा रहे हैं, जो भाजपा



से खतरे में है। उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार भाजपा के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि अगर वे जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कि यह संविधान बाबा साहब अंबेदकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं द्वारा दिया गया था और इसमें आरक्षण के अधिकार सहित लोगों के अधिकारों की गारंटी दी गई थी। लेकिन, उन्होंने आश्वासन दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत संविधान को बदल नहीं सकती। राहुल गांधी ने मोदी पर लोगों को धर्म, क्षेत्र, जाति

और राज्य के नाम पर बांटने और एक-दुसरे से लडाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी देश में सिर्फ 22-25 लोगों का शासन चाहते हैं, जिनकी वे सेवा कर रहे हैं और जिन्हें उन्होंने बंदरगाह, हवाई अड्डे, बुनियादी ढांचे और बिजली परियोजनाओं सहित अन्य चीजों सहित सभी संपत्तियां सौंप दी हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने घोषणा की कि जिस तरह मोदी ने सिर्फ

22 अरबपति बनाए, उसी तरह कांग्रेस पार्टी

करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। उन्होंने

कहा कि गरीबों और युवाओं को नकद

राहुल ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 85 सौ रुपये दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो आंगनवाडी वर्कर या फिर आशा वर्कर जो काम कर रही है उन्हें जो खर्च दिया जाता है उसे भी चार जून के बाद सरकार आने पर डबल कर दिया जाएगा

सहायता प्रदान करने के पीछे एक आर्थिक विचार है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और प्रत्येक परिवार को हर महीने 8500 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह, नए स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए एक योजना होगी। पहली नौकरी पैकेज जिसके तहत उन्हें एक साल के लिए गारंटीकृत प्रशिक्षता मिलेगी और उस अवधि के लिए एक लाख रुपये की निश्चित आय होगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम दैनिक मजदूरी मौजूदा 250 रुपये प्रति दिन से बढाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आय

योजना के पीछे के विचार को समझाते हए, गांधी ने कहा कि मोदी ने लाखों करोड़ रुपये चंद अरबपतियों को दिए, जिन्होंने यह सारा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या दुबई जैसी जगहों पर खर्च कर दिया, जबकि जो पैसा गरीबों, युवाओं और किसानों के हाथों में जाएगा। वह स्थानीय स्तर पर खर्च किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढेगी। उन्होंने कहा कि इससे वस्तुओं की मांग पैदा होगी, जिससे कारखानों में उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मध्यम और लघु उद्योगों के लिए बैंकों के दरवाजे खोलेगी, जो मोदी की नोटबंदी और जीएसटी के गलत तरीके से बनाए गए सिस्टम की नीतियों के कारण बर्बाद हो गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दोहराया कि भारत सरकार अग्निपथ योजना को खत्म करेगी, क्योंकि यह जवानों और सशस्त्र बलों पर हमला और अपमान है। गांधी ने पंजाब में नशे की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है।

जगाधरी वर्कशॉप स्क्रैप घोटाले में सीबीआई ने कसा शिकंजा, रेलवे के बड़े अफसरों पर मामला दर्ज

अंबाला (एजेंसी)

जगाधरी वर्कशॉप में स्क्रैप घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 9 रेल अफसरों और 3 प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार सहित साजिश रच घोटाला करने का मुकदमा दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं सीबीआई

उसी को आगे बढ़ा रही है। सुबूतों को एकत्रित करने के

बाद आरोपियों की धरपकड़ होगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि यह खेल जगाधरी वर्कशॉप के अलावा देश भर की अन्य वर्कशॉप में तो नहीं चल रहा था। जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे खेल का पर्दाफाश होगा। रेलवे के धर्मकांटे में चिप लगाकर कंपनियों को फायदा पहंचाने के लिए कौडियों के भाव स्क्रैप बेच दिया जाता था। रेलवे के कांटे पर रेल संपत्ति तुलाई में कम दिखाता था जबकि यही माल रेलवे की विजिलेंस ने ऐसे ही ट्रकों को पकड़ा, जिनमें स्क्रीप की तुलाई कम दिखा रखी थी जबकि ट्रक में माल ज्यादा लोड हुआ पडा था। विजिलेंस ने बाहर से भी धर्मकांटे पर तुलाई करवाई और दोनों में



काफी अंतर पाया गया। जिसके बाद उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने शोभन चौधरी ने मामले को सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने जिन अफसरों पर मुकदमा दर्ज किया है उनमें सीडीएमएस रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें अमृतपाल सिंह चीफ डिपो मेटीरियल सुपरवाइजर (सीडीएमएस) प्लानिंग जगाधरी वर्कशॉप, जसमिंदर पाल सिंह एएसआई आरपीएफ, मेघराज सिंह

सीडीएमएस सेल्स शामिल हैं।

पंजाब में बागियों ने बढ़ाई कांग्रेस की 'टेंशन', मुक्तसर के पार्षद ने थामा भाजपा का दामन

के पक्ष में निकाले गए रोड शो में भी

यह पार्षद शामिल नहीं हुए थे।

मक्तसर से बागी चल रहे 10 पार्षदों

श्री मुक्तसर साहिब (एजेंसी)

लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। मुक्तसर से एक कांग्रेस पार्षद ने



भाजपा का दामन थाम लिया। जानकारी के मुताबिक बागी चल रहे 10 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की ओर से मनाया नहीं गया। जिस कारण वे फिरोजपुर से प्रत्याशी शेर सिंह घुबाया के चुनाव प्रचार से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। दो दिन पहले मुक्तसर में पंजाब कांग्रेस

गोरा कांग्रेस को छोड कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें भाजपा प्रत्याशी राणा गुरमीत सिंह सोढी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।

जगमीत सिंह गोरा वार्ड नंबर एक से पार्षद हैं। उधर, कांग्रेस के नेता जैसे बागियों को दरिकनार किए हए हैं इससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को

नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि कांग्रेस के अब तक दो पार्षद पार्टी छोड चके हैं। जबिक आठ अभी भी बागी हैं। वहीं कांग्रेस का और नेता सधीर शर्मा भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व पार्षद गुरमीत सिंह जीता ने कहा कि उनका नगर कौंसिल के प्रधान कृष्ण कुमार शम्मी तेरिया के साथ मतभेद हैं। प्रधान जो भी काम करना हो अपने स्तर पर करते हैं। उनकी कोई राय नहीं ली जा रही और न ही उनकी वार्डों में कोई काम हो रहा है। इसकी उन्होंने शिकायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंतत : उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया जिसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। नगर कौंसिल के प्रधान के लिए उनकी परवाह नहीं की जा रही जिस कारण 10 पार्षद नाराज होकर घर बैठ गए हैं। दो तो पार्टी छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार का हिस्सा

किसानों व कमेरा वर्ग के सच्चे हितैषी थे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह: प्रो. बी.आर. काम्बोज

चंडीगढ ओपन सर्च

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसान एवं कमेरा वर्ग के सच्चे हितैषी थे इसलिए उन्हें किसानों का मसीहा कहा गया है। वे कृषि अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले उच्च कोटि के विद्वान, लेखक एवं अर्थशास्त्री थे। चौधरी चरण सिंह किसानों

के दिलों में बसते थे। प्रो. काम्बोज आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुलपति ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि

विश्वविद्यालय के साथ चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेता का नाम जुड़ा है। हमारा संस्थान उनकी नीतियों के अनुरूप देश के कृषि विकास एवं किसानों के लिए समर्पित भाव से



कार्य कर रहा है। हम सभी को चौधरी चरण सिंह द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक कार्य करते हुए देश, प्रदेश तथा गरीब किसानों की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अधिकारियों,

विभागाध्यक्षों, वैज्ञानिकों व कर्मचारियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू, 31 मई तक दिया जाएगा योग प्रशिक्षण

अधिक लोड हुआ होता था। उत्तर

उपायुक्त उत्तम सिंह के दिशा निर्देशानुसार तथा आयुष विभाग के महानिदेशक अंशज सिंह के मार्गदर्शन में जिला में 10 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को सफलतापूर्वक मनाने के लिए प्रथम कड़ी में 29 मई 2024 से 31 मई 2024 तक जिला के 6 ब्लॉक असंध, घरौंडा, निसिंग, इन्द्री, नीलोखेड़ी तथा करनाल में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के कुल 226 पी टी आई तथा डीपीई, आयुष योग सहायकों ने अन्तर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के प्रशिक्षण में प्रथम दिन भाग लिया। आयुष विभाग करनाल के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डाँ० सतपाल ने बताया कि करनाल ब्लॉक में अटल पार्क सेक्टर 8 के योग शेड, जे पी एस अकादमी असंध, पी एम एस जी एस एस एस घरौंडा, जी जी एस एस एस इंद्री, पी एम एस जी एस एस एस नीलोखेडी, जी एस एस एस निसिंग में अंतरराष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल



नोडल अधिकारी हरियाणा योग आयोग करनाल डॉ. अमित पंज ने बताया कि सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के सभी पीटीआई तथा डीपीई, विभिन्न योग संस्थान पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बाद सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न आसन, भारतीय योग संस्थान सहित सभी योग प्राणायाम व ध्यान आदि का प्रशिक्षण का शिक्षण प्रशिक्षण करने वाली दिया गया। शिविर का समापन शांति संस्थाओं का तथा उनके योग शिक्षकों पाठ के साथ किया गया। कार्यक्रम में का इस सफल आयोजन में सहयोग हेतु धन्यवाद दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक इंचार्ज करनाल डॉ नितिन रोहिला, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष सोमनाथ अरोड़ा, पूर्व महिला अध्यक्ष राजरानी, बबीता वत्स, आयष विभाग के योग सहायक तथा अन्य साधक गण उपस्थित रहे साधकों को प्रसाद का वितरण भी किया गया।

योग दिवस के हेतु आने वाले आगामी प्रोग्रामों के लिए भी लगातार तैयार रहने . विभिन्न पार्कों में तथा संस्थाओं में योग का निरंतर शिक्षण करते रहने के लिए तथा साधकों की संख्या बढाने के लिए प्रेरित किया।

भोला डुग्स मामले में श्रष्ठ की 13 जगहों पर छापेमारी, अब तक 3.5 करोड रुपये कैश बरामद

रूपनगर (एजेंसी)

भोला ड्रग्स मामले से जुड़ी जांच में ईडी ने खनन ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मख्य आरोपी जगदीश सिंह उर्फ



भोला से जुड़े मादक पदार्थों से जुड़े धन शोधन मामले के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। सत्रों ने बताया कि रूपनगर जिले में कुल 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि यह पाया गया कि भोला मामले में ईडी द्वारा पहले जब्त की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। ईडी अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई जमीन पर और रूपनगर (रोपड़) जिले के आस-पास के इलाके में अवैध खनन किया जा रहा

था। कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था। भोला ड्रग केस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। इस कथित अवैध खनन मामले में कुछ आरोपियों में नसीबचंद और श्री राम क्रशर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अब तक करीब 3 करोड रुपये नकद जब्त किए गए हैं। इग्स मनी लॉन्ड्रिंग का मामला करोडों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा है, जिसका पंजाब में 2013-14 के दौरान पता चला था। ईडी ने पंजाब पलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस मामले को आमतौर पर भोला डुग केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कथित किंगपिन, पहलवान से पुलिसवाला और फिर 'ड्रग माफिया' बने जगदीश सिंह उर्फ भोला की पहचान की गई है।

आग बुझाने के लिए रेत में लेटे फिर रेंग-रेंगकर आगे गए लोग, चश्मदीदों ने बताया उस भयावह शाम का मंजर

सोनीपत (एजेंसी)

नहीं बन रहे हैं।

रबड पार्ट बनाने वाली फैक्टी में आग की चपेट में आए राहगीरों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। आसपास से गुजर रहे लोगों के शरीर पर अचानक से आग के गोले बरसने शुरू हो गए। आग बुझाने के लिए राहगीर जमीन पर पड़े रेत में लेटने लगे। जो आग बुझाने में सफल रहा, उसने किसी तरह मौके से भाग कर अपनी जान बचाई, जो भाग नहीं सका. उसे फायर ब्रिगेड की टीम के जवानों ने आकर बचाया। बिहार के रहने वाले सतेंद्र ने बताया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, उससे 100 फीट दूर के रास्ते से जा रहा था। अचानक से आग की लपटें उसके कंधे पर गिर गई। जब तक वह संभलता. तब तक कपडों ने आग लग गई। बचाव के लिए वह जमीन पर रेत में लेट गया और हाथों में रेत लेकर



आग न फैले। वह रेंग रेंग कर थोडी और दर गया। करीब 15 मिनट तक इसी हालत में पड़ा रहा। एक साथ 16 मरीज आने से नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हालात बिगड गए। स्ट्रेचर भी कम पड़ गए। गंभीर रूप से झुलसे मरीज अपने एक हाथ में कपड़े और दूसरे हाथ में ग्लूकोज की बोतल का पाइप पकड़कर एंबुलेंस तक खुद ही पैदल चलकर पहुंचे। व्यवस्था का ऐसा हाल देख कर अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकें। सीएमओ की तरफ से

पुरी संख्या में डाक्टरों और मेडिकल स्टाफ को तो बला लिया. लेकिन ऐसी व्यवस्था ने स्वास्थ्य प्रबंधनों की पोल खोल दी। नागरिक अस्पताल में बर्न वार्ड की सुविधा नहीं है और 50 फीसदी से ज्यादा झुलसे लोगों को 60 किमी दूर रोहतक भेजा जाता है। 📆 हां पहुंचने में कम से कम एक से डेढ़ घंटे तक का समय लगता है। ये वी गोल्डन समय होता है, जब मरीज को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

व्यवस्था नहीं हैं। हालांकि अपने स्तर पर मेडिकल टीम ने सभी लोगों को उपचार देने में कोई कसर नहीं छोडी। सीएमओ डा. जयकिशोर ने बताया कि सभी डाक्टरों और मेडिकल टीम अच्छा काम कर रही है। पीड़ितों को समय पर इलाज देकर उनकी जान बचाई गई है। बर्न वार्ड पीजीआइएमएस रोहतक में है, इसलिए 50 फीसदी से ज्यादा झुलसे लोगों को रोहतक भेजा जाता है। राई थाना प्रभारी उमेश ने बताया कि पीडित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी झुलसे लोगों को इलाज की जरू है। इस मामले में जो भी कानूनी गरवाई बनेगी, उसी के अनुसार केस दर्ज किया जाएगा।

'कांग्रेस को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ और भाजपा जिताओ...', पंजाब में बोलीं स्मृति ईरानी

मोगा (एजेंसी)

पंजाब के मोगा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी रैली का आयोजन किया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना कसते हुए कहा कि चार जून को दो बातें पक्की है। भाजपा का जीतना और केजरीवाल का जेल में जाना। उन्होंने कहा कि जैसे भाजपा का जीतना तय है वैसे ही कांग्रेस के खेमे में भूकंप का आना तय है। स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तपती धूप में काम करते हैं और तभी जीत पक्की होती है। उन्होंने कहा कि राहल गांधी जी को गर्मी लगती है, वह स्टेज पर खड़े होकर बोतल सिर में डालकर ठंडक लेते हैं। पंजाब को लेकर स्मित ने कहा कि यह वो पंजाब है जिसने देश की सरहदों की

रक्षा की। यह वो पंजाब है जिस पर 1984 में कांग्रेस की सरकारों ने हमले किए मगर अब पंजाब और फरीदकोट वासियों को समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अब चूकना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी न होते तो करतारपर कॉरिडोर न खलता। यदि मोदी न होते तो फरीदकोट के 1 लाख 89 हजार परिवारों को आयुष्मान कार्ड की योजना का फायदा नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि 55 हजार किसानों को पैसा उनके खाते में नहीं मिलता। तीन लाख 23 हजार लोगोंको राशन नहीं मिला उन्होंने कहा कि कोविड 🕺 एक डोज का खर्च 600 रुपए होता ह जिंक दो डोज का 1200 रुपए।

(र लाखों में)

मल्टीपर्पस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड (CIN:-L70101DL2002PLC115544)

पंजी. कार्यालयः बी—1, कालंदी कॉलोनी, नई दिल्ली—110065, फोन/फैक्स: 011-26316162,011-26919899

31.03.2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वितीय परिणाम का उद्धरण [सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियमन 47 (1) (बी) देखें]

क . सं.	विवरण	31.03.2024 समाप्त विमाही	वर्ष-दर-वर्ष आंकड़े 01.04.2023 से 31/03/2024 तक	पिछले वर्ष 31/03/2023 को समाप्त हुए संगत 3 महीने
1	कुल आय	8.93	35.46	8.40
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण विवरण#)	5.23	21,19	5.15
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं के बाद#)	5.23	21.19	5.15
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं के बाद#)	7.14	19.15 19.15	6.79 6.79
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]			
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	495.00	495.00	495.00
7	पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट में दर्शाइ गई आरंखित निधियां (रिवेल्युशन रिजर्व को छोड़कर)	(0.02)	(0.02)	(19.16)
8	प्रति शेयर आय (जारी और बंद किए गए संचालन के लिए) — 1. बेसिक: 2. डिल्युटिड:	0.14 0.14	0.39 0.39	0.14 0.14

 क) उपरोक्त परिणाम की समिक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 30/06/2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदिः किया गया है।

 ख) उपरोक्त सेत्री (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 39 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाय अलेखापरीक्षेत वित्तीय परिणामों के विरतृत प्रारूप का एक उद्धरण है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज (ऑ की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.multipurposetrading.in पर उपलब्ध है।

कते मल्टीपर्पस टेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेर हस्ता/-आशीष सिंह

DIN: 00066423

कपडों और सिर पर डाल लिया ताकि लेकिन नागरिक अस्पताल में आग से नगर निगम के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर प्रॉपर्टी आई.डी. को करेंगे स्व-प्रमाणित, वार्ड अनुसार 20 टीमों का किया गठन : अशोक कूमार

करनाल.ओपन सर्च

नगर निगम क्षेत्र की प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करने के लिए निगम की ओर से 20 टीमों का गठन किया गया है, जो निर्धारित वार्ड अनसार घर-घर जाकर सभी सम्पत्तियों को स्व-प्रमाणित करने का काम करेंगी।

इसे लेकर बुधवार को उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने नगर निगम के सभागार में सम्पत्ति कर शाखा के अधिकारियों तथा गठित टीमों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में उप निगमायुक्त ने प्रत्येक टीम को रोजाना कम से कम 50 सम्पत्तियों को स्व-प्रमाणित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्रत्येक कर्मचारी प्राथमिकता पर लेकर करें। उन्होंने शहर वासियों से भी अपील करते कहा है कि नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी.

अपील- प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करना नागरिकों के हित में. नगर निगम का करें सहयोग



को स्व-प्रमाणित करवाने के लिए निगम कर्मचारियों का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि अब तक 27 हजार 989 प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्पत्ति धारकों की सम्पत्ति का स्व-प्रमाणित होना आवश्यक है और यह उन्हीं के हित में भी है। प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित होने के बाद केवल सम्पत्ति

मालिक ही उस डाटा को देख सकता है, कोई अन्य नहीं। क्योंकि ऐसा करने से प्रॉपर्टी आई.डी. लॉक हो जाती है। इस कारण कोई अन्य व्यक्ति न तो उस डाटा को देख पाएगा और न ही उसमें किसी प्रकार की छेडखानी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का कार्य नागरिकों की भागीदारी से ही पूर्ण होगा, इसलिए

ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करवाने के लिए नगर निगम का सहयोग करें। प्रॉपर्टी आई.डी. को कैसे करें स्व-प्रमाणित- उप निगमायुक्त ने बताया कि अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को नागरिक स्वयं भी स्व-प्रमाणित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले एन.डी.सी. पोर्टल property.ulb-

सर्च फील्ड में जाकर प्रॉपर्टी आई.डी. को सर्च करें। फिर प्रॉपर्टी का ब्यौरा पर क्लिक कर उसे चेक करें। प्रत्येक ब्यौरा के आगे येस व नो, दोनो विकल्प मिलेंगे। उसे ध्यान से पढ़ने के बाद, सारा डाटा ठीक दिखाई दे, तो उसे येस कर दें। सारी जानकारी को येस करने के बाद अंत में परिवार पहचान पत्र या आधार नम्बर उनकर

haryana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट युएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट

इन) साईट पर जाना होगा। इसके बाद

अगर किसी व्यक्ति ने साईट पर

र्राजस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक, नहीं

तो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर

उस पर अपना ब्यौरा दर्ज करें।

इसके पश्चात अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से लॉगिन करें तथा सब्मिट करें, उसके पश्चात प्रॉपर आई.डी. स्व-प्रमाणित हो जाएगी।

दिनांक: 30.05.2024